

To,  
**The BSE Limited**  
Listing Department  
25<sup>th</sup> Floor, P J Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400001, MH

Date: 11<sup>th</sup> November, 2025

Scrip Code: 532829

**Sub: Newspaper Advertisement for Un-audited Financial Results of the Company for Quarter and Half year ended 30<sup>th</sup> September, 2025 under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.**

Dear Sir/Madam,

As required under Regulation 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed newspaper advertisement regarding Un-Financial Results of the Company for Quarter and Half Year ended 30<sup>th</sup> September, 2025 published in following newspapers on 11<sup>th</sup> November, 2025:

- *Nafa Nuksan (Hindi)*
- *Business Remedies (Hindi)*
- *Financial Express (English)*

This is for your information and record.  
Thanking You

Yours faithfully,  
for **Lehar Footwears Limited**

**Ritika Poddar**  
Company Secretary & Compliance Officer  
ACS No. A65615



**LEHAR FOOTWEARS LIMITED**

A-243(A), Road No. 6, V.K.I. Area, Jaipur-302013, Raj (INDIA)

Phone : +91-141-4157777

W.- [www.leharfootwear.com](http://www.leharfootwear.com), E.-[info@leharfootwear.com](mailto:info@leharfootwear.com) •

CIN No. : L15209RJ1994PLC008196



**IWAE LIR Evawave ISTUDENT PU BLISS + ORTHO RELAX**  
Doctor of Your Feet













**RP - Sanjiv Goenka  
Group**  
Growing Legacies



**CESC**  
LIMITED

## NOTICE INVITING E-TENDER

E-tender is invited by Executive Director, Power Marketing, CESC Ltd. on 11.11.2025, having Registered Office at CESC House, Chowringhee Square, Kolkata-700001 for purchase of power on Short Term basis from April, 2026 to June, 2026 as per Ministry of Power (MOP), GOI guidelines dated 30.03.2016 and amendments thereof.

Soft copies of tender documents are available on [www.msceccommerce.com](http://www.msceccommerce.com) and [www.cesc.co.in](http://www.cesc.co.in)

The bids are to be submitted electronically through DEEP Portal of MSTC.

**HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED**  
Registered office: 97/3A, Developer's Industrial Estate, Chumby,  
Chennai - 600 032, Tamil Nadu, India. [sales@hindujahousingfinance.com](mailto:sales@hindujahousingfinance.com)  
Contact No: Prem Line 82371 20978 & Arun Mohan Sharma - 8800898999

 **HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED**

**Demand Notice under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002**

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of **Hinduja Housing Finance Limited (HHFL)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorized Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-section (4) of the Section 13 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, the attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

[illegible]

**FORM NO. CAA. 2**  
(Pursuant to section 230(3) of Companies Act, 2013 and rule 6 and 7 of The Companies  
(Compromises, Arrangements, and Amalgamations) Rules, 2016)  
**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,  
BENCH AT CHANDIGARH  
CA (CAA) No. 46/Crd/H/2025  
In the matter of the Companies Act, 2013  
And  
In the matter of sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with the  
Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016**

And  
In the matter of composite scheme of arrangement amongst The Hind Samachar  
Limited, Hind Samachar Renewable Energy Private Limited and Hind Samachar  
Media Private Limited and their respective shareholders and creditors  
**ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF**  
**THE EQUITY SHAREHOLDERS, SECURED CREDITORS AND UNSECURED**  
**CREDITORS OF THE HIND SAMACHAR LIMITED**

**Notice is hereby given** that in accordance with the order dated October 1, 2025 ("Tribunal Order"), passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at Chandigarh ("Tribunal"), has directed for convening separate meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Hind Samachar Limited ("Dermerged Company") as on March 31, 2025 ("Cut-off Date") for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed composite scheme of arrangement amongst the Dermerged Company, Hind Samachar Renewable Energy Private Limited ("Company 1") and Hind Samachar Media Private Limited ("Resulting Company 2") and their respective shareholders and creditors ("Scheme") under sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") in the below mentioned manner:

Particulars of Meeting	Date and Time	Remote e-voting period
Meeting of Equity Shareholders of Demerged Company	Saturday, December 13, 2025, at 10:30 A.M. (IST)	Wednesday, December 10, 2025, at 09:00 A.M. (IST) to Friday, December 12, 2025, at 05:00 P.M. (IST)
Meeting of Secured Creditors of Demerged Company	Saturday, December 13, 2025, at 12:00 P.M. (IST)	Wednesday, December 10, 2025, at 09:00 A.M. (IST) to Friday, December 12, 2025, at 05:00 P.M. (IST)
Meeting of Unsecured Creditors of Demerged Company	Saturday, December 13, 2025, at 1:30 P.M. (IST)	Wednesday, December 10, 2025, at 09:00 A.M. (IST) to Friday, December 12, 2025, at 05:00 P.M. (IST)

In pursuance of the Tribunal Order and as directed therein, and in compliance with the applicable provisions of the Act and the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs, further Notice is hereby given that separate meetings of the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the aforesaid Demerged Company ("Meetings") are scheduled to be held on the aforesaid dates and time through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"), at which the respective Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors are requested to attend.

Copies of the Notice of Meetings along with the Scheme, explanatory statement under section 230(3) of the Act and the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, and other applicable provisions, if any, and other documents, if any, have been sent through e-mail to all the Equity Shareholders and Secured Creditors and Unsecured Creditors having an outstanding balance of more than INR 50,000/- each of the aforesaid Demerged Company as on Cut-off Date whose email addresses are available with the Demerged Company. For the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors whose email id is not registered with the Demerged Company, Notice of Meetings shall be sent physically as directed in Tribunal Order.

In respect of Unsecured Creditors having outstanding balance of INR 50,000/- or less each, whose e-mail addresses are not registered with the Demerged Company, letter has been sent containing the web-link of the Notice of the meeting, along with explanatory statement, and detailed instructions for voting and attending meeting of Unsecured Creditors.

The Notice of the aforesaid Meetings and the accompanying documents of the Demerged Company are placed on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at <https://www.evoting.nsdl.com>, being the agency appointed by the Demerged Company to provide the MAS Service Limited (facilitator) to provide e-voting and other facilities for the Meetings. In case of any difficulty in e-voting or attending the Meetings through VC/OAVM, please contact Mr. Sharwan Mangla at +91 9811242828 or write an e-mail at [sm@masserv.com](mailto:sm@masserv.com).

The Meetings are being held through VC/OAVM, option of attending the Meetings through proxy is not applicable/ available. However, it is clarified that corporate bodies/institutions will be eligible to cast their votes through their representative duly authorised by Board Resolutions/Letter of Authorization as the case may be.

The respective Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Demerged Company shall have the facility of option of voting on the resolution for approval of the Scheme by casting their votes (a) through e-voting system available at the Meeting to be held virtually ("e-voting at the Meeting") or (b) by remote e-voting ("remote e-voting"). At the end of the remote e-voting period (as mentioned above), the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Demerged Company attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their vote at the Meeting. Further, the Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Demerged Company who are attending the Meeting through proxy, shall be able to exercise their vote at the Meeting. The Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Demerged Company are requested to carefully read all the notes set out in the Notice.


The Tribunal has appointed Mr. Gajender Kumar Kaushik, Advocate (Enrol. No. D/141/1984) as Chairperson and Ms. Swati Saluja, Advocate as the Scrutinizer for the Meetings. The Scheme, if approved at the Meetings, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

The Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Demerged Company desiring any information with regard to the Scheme or the matter proposed to be considered at the meeting, are requested to write to the Demerged Company at least 3 (three) days before the date of the meeting through email at [roc.pkgroup@gmail.com](mailto:roc.pkgroup@gmail.com).

**Sd/-  
Mr. Gajender Kumar Kaushik  
Advocate (Enrol. No. D/141/1984)**

**Date: November 10, 2025**

**Place: Delhi**      **Chairperson appointed by the Tribunal for the Meetings**



## punjab national bank

... the name you can BANK upon!

**BRANCH OFFICE:**  
**JAITO (025310)**

**[Rule 8- (1)] POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)**

Whereas the Undersigned being **"Authorized Officer"** of **Punjab National Bank**, Under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in Exercise of powers conferred under section 13 read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a **demand notice** under Section 13(2) of SARFAESI Act 2002 calling upon the following borrower(s)/Guarantor(s) to repay the amount mentioned in notice within 60 days of the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken **Possession** of the property described here below in Exercise of the power conferred on him under section 13(4) of said ACT read with rule 8 of the Security interest Enforcement Rules, 2002.

The Borrower(s)/Guarantor(s) in particular & the public in general is hereby cautioned not to deal with the said property and dealing with the property will be subject to the charge of the **Punjab National Bank**, for an amount details mentioned herein below.


**The Borrower(s)/ Guarantor(s) attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset(s).**

Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s)	Description of the Property Mortgaged	Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount Outstanding
<b>Borrower: Ms. Inderpal Kaur W/o Manjit Singh.</b>	All that part and parcel of Residential House measuring 30X41 i.e. 1230 Sq. feet i.e. 5 Marlas i.e. 5/49 Share of 2 Kanals 09 Marlas, Khasra No. 180/110/2/2(2)-0(06), 180/11/3/4(1-01), 180/12/13/1(0-14), 180/26/1(0-02), 180/9/4/1(0-06), Khasa No. 621/920 and 921. Situated at MC Property No. B-10/00211, Hargobind Nagar, Opposite New Grain Market, Kotkapura Road, Jaito -151202. Owned by Ms. Inderpal Kaur W/o Manjit Singh. Vide RTD No. 347 dated 14.05.2009 (Tatima No. 2270 dated 04.02.2015), Mutation No. 151 dated 27.10.2021. Bounded as under: <b>East:</b> 41 Tej Singh, <b>West:</b> 41 <sup>st</sup> Labh Singh, <b>North:</b> 30 <sup>th</sup> Darshan Singh & Zameen Singh, <b>South:</b> 30 <sup>th</sup> Street	<b>09.05.2024</b>	<b>03.11.2025</b>	<b>Rs. 7,55,847.27</b> (Rupees Seven Lakhs Fifty Five Thousand Eight Hundred Forty Seven & Paise Twenty Seven Only) as on 30.04.2024 with further interest, charges & expenses thereon.

**Date : 03.11.2025**


**Place : Jaito**

**Authorized Officer**



**punjab national bank**

... the name you can BANK upon!



**पंजाब नैशनल बैंक**

... भरोसे का प्रतीक !

**Branch Office : Mughal Canal, Housing Hub, SCO 322-323, Karnal, HR-132001**

**SYMBOLIC POSSESSION NOTICE**

Whereas the undersigned being the authorized officer of the **PUNJAB NATIONAL BANK, Mughal Canal, Housing Hub, Distt. Karnal** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 read with rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **17.07.2025** calling upon the **borrower and guarantors (1). M/s Raj Meat Shop** through its Proprietor **Sh. Sunny Kumar S/o Sh. Raj Kumar** bearing address **H.No.220, Matak Mazri, Jundla Gate, Karnal, 132001 (Borrower)** (2) **Sh. Sunny Kumar S/o Sh. Raj Kumar R/o H.No.220, Matak Mazri, Jundla Gate, Karnal, 132001 (Proprietor/Guarantor)** (3) **Smt. Kuntia Rani W/o Sh. Raj Kumar R/o H.No.220, Matak Mazri, Jundla Gate, Karnal, 132001 (Guarantor)** (4) **Sh. Raj Kumar S/o Sh. Mani Ram R/o H.No.220, Matak Mazri, Jundla Gate, Karnal, 132001 (Guarantor)** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 14,69,652.73/- (Fourteen Lakh Sixty-Nine Thousand six hundred fifty-two and Seventy three Paise Only)** with further interest & other expenses **w.e.f. 01.07.2025** minus recoveries if any until Payment in full (hereinafter referred to as secured debt) onward within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the said rules on this **03/11/2025**.

The borrower's/guarantor's/mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available redeem the secured assets

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab National Bank, **BO: Mughal Canal, Housing Hub, Karnal** for an amount **Rs. 14,69,652.73/- (Fourteen Lakh Sixty-Nine Thousand six hundred fifty-two and Seventy three Paise Only)** with further interest & other expenses **w.e.f. 01.07.2025** minus recoveries if any until Payment in full (hereinafter referred to as secured debt)

**DESCRIPTION OF THE MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY**

Half part of H.No. X-397 (Property ID No. 186C81U11), Eastern Side having area 112 Sq Yards situated at Bhatt Colony, Karnal (within Municipal Limits) with all rights appurtenant thereto vide transfer deed No. 4658/1 Dated: 30.09.2016 with the office of S.R. Karnal standing in the name of Smt. Kuntia Rani, which is bounded as under - North: 22 Ft - Plot No. 38, South: 22 Ft - Rasta, East: 46.3 Ft- House of Raj Kumar, West: 45.8 Ft- House of Shiv Kumar S/O Sh. Mani Ram.

**Date: 03.11.2025**

**Place: Karnal**

**Authorised Officer, Punjab National Bank**

<div> <div>LEHAR FOOTWEARS LIMITED</div> <div>CIN: L15209RJ1994PLC008196</div> <div>REG OFFICE: A-243(A), ROAD NO.6, V.K.I.AREA, JAIPUR 302013, PHONE:0141-4157777</div> <div>Website: www.leharfootwear.com, E-mail: cso@leharfootwear.com info@leharfootwear.com</div> <div>Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2025</div> </div>						
Sl. No	Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended	
		30 Sept '25 (Unaudited)	30 June '25 (Unaudited)	30 Sept '24 (Unaudited)	30 Sept '25 (Unaudited)	31 March '25 (Audited)
1.	Total Income (including other income)	14059.16	14225.28	3764.63	28284.44	10087.80
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1007.24	972.76	173.45	1980	1444.4
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	1007.24	972.76	173.45	1980	1444.4
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	729.34	727.13	126.74	1456.47	1086.9
5.	Total comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)] and other Comprehensive income (after tax)	715.76	727.13	342.87	1442.89	1265.68
6.	Equity share capital	1767.88	1767.88	1767.88	1767.88	1767.88
7.	Reserves (excluding Revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0	0	0	0	6703.76
8.	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-					
2) Basic		4.13	4.11	0.72	8.24	2.06
2) Diluted		4.13	4.11	0.72	8.24	2.06

**Notes: a)** The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Year Ended 30th September, 2025 Financial Results filed with the Stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results Quarterly Ended are available on the website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com and company's website www.leharfootwear.com and the same can be accessed by scanning the QR Code.


**b)** The above financials were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th November, 2025. **c) P** - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules / AS Rules, whichever is applicable. **d)** Saksham Niveshak-Manner of registering KYC including bank details for receiving dividend Pursuant to MCA circular dated July 16, 2025, MCA has initiated a 300 days campaign for updation of KYC and other related details of members including bank details to prevent transfer of unpaid/unclaimed dividends to IEPF. Details of unpaid/unclaimed dividend lying with the company are available on <https://www.leharfootwear.com/dividend>. For claiming the unpaid/unclaimed dividends, the members are requested to update their KYC as given below:

**i)** The members holding shares in physical form -with the Company's registrar at Bighsare Services Pvt. Ltd., Unit -Lehar Footwear Limited, Office No. 56-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, near to Ahura Center, Mahakali Nagar Road, Andheri East, Mumbai-400093. **ii)** For shares held in dematerialized form, with the Depository Participants (DP) where the demat account is maintained as per the process advised by DP. Upon updation of KYC and bank details, members are requested to intimate the same to the RTA so that the unpaid/unclaimed dividend can be credited to their bank account

Date: 10.11.2025  
Place: Jaipur

For and on behalf of the Board of Directors of Lehar Footwear Limited  
Sd/- Naresh Kumar Agarwal (Managing Director)

DIN:00106664


<div>  <div> <b>INDIAN TONERS &amp; DEVELOPERS LIMITED</b>  <b>CIN: L74993UP1990PLC015721</b>  <b>Regd.Off.: 10.5 KM Milestone , Rampur - Bareilly Road , Rampur- 244901</b>  <b>Website: www.indiantoners.com, E-mail: info@indiantoners.com, Phone: 011-45017000</b> </div> </div>						
<b>Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter &amp; Half Year Ended 30th September,2025</b> <b>(Rs. In Lakh except per Share Data)</b>						
S. No	Particulars	Quarter ended			Half Yearly Ended	
		Sept 30,2025 Unaudited	June 30,2025 Unaudited	Sept 30,2024 Unaudited	Sept 30,2025 Unaudited	Sept 30,2024 Unaudited
1.	Income from operations	3,885.49	3,910.26	3,767.90	7,795.75	7,299.48
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items )	714.04	886.15	832.81	1,600.19	1,586.72
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	714.04	886.15	832.81	1,600.19	1,586.72
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax and Exceptional items	538.45	784.06	550.59	1,322.51	931.72
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	538.15	789.23	559.39	1,327.38	941.89
6.	Equity Share Capital	1,039.17	1,039.17	1,039.17	1,039.17	1,039.17
7.	Earnings per share of Rs 10 each					
	(a) Basic (Rs)	5.18	7.54	5.07	12.73	8.59
	(b) Diluted (Rs)	5.18	7.54	5.07	12.73	8.59

**Notes:**

1 The above financial results were reviewed by the Statutory Auditors of the company, reviewed by the Audit committee and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 10th Nov,2025. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the Bombay Stock Exchange .

2 The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter & Half year ended 30th Sep,2025, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the Quarter & Half year ended 30th Sep,2025 alongwith review report of the Statutory Auditors is available under Investors section of our website at [www.indiantoners.com](http://www.indiantoners.com) and under Financial Results at Corporate section of [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

3 The Board at its meeting held on 10th November, 2025 has declared interim dividend of Rs. 6.00 per Equity Share (Face Value :Rs 10/- per equity share).



**By Order of the Board**  
**For Indian Toners & Developers Limited**  
**Sd/-**  
**(SUSHIL JAIN)**  
**Chairman**  
**DIN 00323952**

**Place : New Delhi**  
**Date : 10th Nov , 2025**

Scan QR Code to view Results

<b>SERVOTECH RENEWABLE POWER SYSTEMS LIMITED</b> (Formerly Known as Servotech Power Systems Limited) CIN: L31200HR2004PLC136025 Corporate Office: 806, 8th Floor, Crown Heights, Hotel Crown Plaza, Sector 10, Rohini-110085, New Delhi Tel. No.: 011-41181139   Email: investor.relations@servotechindia.com   Website: www.servotech.in						
<b>Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th September 2025</b> (Rs. in Lakhs)						
S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated	
		Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	
		30.09.2025 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2025 (Un-audited)	30.09.2024 (Un-audited)	30.09.2025 (Un-audited)
1	Total Revenue from Operations	10,292.63	18,275.74	22,806.21	10,765.68	20,006.93
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	310.45	1,537.88	1,314.43	52.92	1,533.03
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	310.45	1,537.88	1,314.43	52.92	1,533.03
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	227.23	1137.77	982.29	39.51	1124.21
5	Total Comprehensive Income/Loss for the period	227.23	1137.77	982.29	39.51	1124.21
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 1/- each)	2258.45	2229.04	2258.45	2258.45	2229.04
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-	-	-
8	Earnings per share of ₹ 1 each (not annualized):					
(a)	Basic	0.10	0.51	0.44	0.06	0.51
(b)	Diluted	0.10	0.51	0.42	0.06	0.51

**Notes:**

- The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (Ind-AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended) and SEBI circular dated 5th July, 2016.
- The above Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 09th November, 2025. The Statutory Auditor have expressed an unmodified audit opinion on these results.
- The above is an extract of the detailed format of Un-audited financial result for quarter ended 30th September 2025 filed with NSE under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The full format of Unaudited Financial Result (Standalone and Consolidated) for quarter and half yearly ended 30th September 2025 is available on the website of the Company [www.servotech.in](http://www.servotech.in) and NSE [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

For Servotech Renewable Power System Ltd.  
 Sd/-  
 Raman Bhatia  
 Managing Director  
 DIN : 00153827

Place : New Delhi  
 Date : 09.11.2025

बैंक ऑफ इंडिया

**Bank of India**



**BOI**

**POSSESSION NOTICE**


APPENDIX-IV [See Rule-8(1)]

**POSSESSION NOTICE (for Immovable Properties)**


Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest, Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Had issued a Demand Notice, calling borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of same. The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property/ies described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section 13 (4) of the Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on the dates mentioned hereunder. The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of the **Bank of India** for mentioned amount and interest thereon. **The borrower's/guarantor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.**

S. No.	Name of Borrowers & Guarantors	Description of the Immovable property Mortgaged/ Owner of the property	Amount QS as mentioned in the notice S/13(2) of Demand & Possession Notice
<b>Branch: Asset Recovery Branch, Lucknow</b>			
1.	M/s INI Zariwala & Syed Israr Hussain	All that part and parcel of the property consisting of Shop No. S1 & S2, 2nd Floor of commercial building "Unnao Arcade" on Plot No. 5, on House No. 92/200 situated at Bans Mandi, Gautam Buddh Marg (Latouche Road), Lucknow (UP) admeasuring 52.323 sq. mtr., Owner- Syed Israr Hussain S/o Late Mr. Abrar Hussain, Boundaries:-East: Building of Industrial Inter College, West: Gautam Budh Marg, North: Building of British Paints, South: Building of Industrial Inter College	Rs. 1,87,66,135.15 + Interest  <b>Demand Notice Dt. 02.09.2025</b>  <b>Possession Notice Dt. 07.11.2025</b>

Date : 07.11.2025
Place : Lucknow
Authorised Officer, Bank of India



**यूनियन बैंक**  
ऑफ इंडिया  
भारत सरकार का उपक्रम



**Union Bank**  
of India  
(A Govt. of India Undertaking)

---

**UNDELIVERED DEMAND NOTICE (SARFAESIA NOTICE SEC 13(2))**

Union Bank of India,  
Sector- O Branch, C-57, Sector N, Alliganj, District - Lucknow, Uttar Pradesh-226024  
Central Office: 239, Vidhan Bhawan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021

To,  
**The Borrower/s:-1(a) Mr. Dharmendra Kumar Yadav S/o Shri Sohan Lal Yadav, Address: 645A/224G, Janki Bihar Madiyagan Gaon, Jankipuram, Near Shivani Hospital, Lucknow- 226021, Uttar Pradesh**  
**1(b) Mrs. Pratibha Yadav W/o Dharmendra Kumar Yadav, Address: 645A/224G, Janki Bihar Madiyagan Gaon, Jankipuram, Near Shivani Hospital, Lucknow- 226021**  
 Dear Sir,

Notice dated **07.10.2025** issued to you u/s 13(2) of The Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 by **CMS Sector O Branch**, the Authorised Officer, was sent to you calling upon to repay the dues in your loan account/s with us at your last known address could not be served. Therefore, the contents of the said demand notice are being published in this newspaper.

The credit facility/loan facilities availed by you have been classified as NPA on **25.08.2025**. You have executed loan documents while availing the facilities and created security interest in favour of the Bank. The details the credit Facilities and secured assets are as under:  
 Credit facilities availed with outstanding amount as on **31.08.2025 total outstanding amount Rs.17,87,273.34 (Rupees Seventeen Lakhs Eighty-seven Thousand Two Hundred Seventy-three And Paise Thirty Four) together with contractual rate of interest from 01.09.2025**  
 Equitable Mortgage of Residential Land And Building On One Kita Plot, Min Mumia Kharsa No-189, Gram- Madiyagan, Pargana-Mahona, Tehsil - Bakshi Ka Talabab, District- Lucknow, Uttar Pradesh, **Admeasuring- 800 Sft Or 74.349 Sqm., Property Owned By- Mr. Dharmendra Kumar S/o Mr. Sohanlal, Boundaries: East: Road 15.00feet Wide, West: Others Land, North: Others Land, South: Plot Sri Rajesh Maurya** (as Per Sale Deed Dated 22.03.2005 Serial Number 1208)

Therefore, you, **1.a) Mr. Dharmendra Kumar Yadav S/o Shri Sohan Lal Yadav & 1.b) Mrs. Pratibha Yadav W/o Dharmendra Kumar Yadav**, as borrowers in terms of the aforesaid notice have been called upon to pay the aforesaid sum of **Rs.17,87,273.34 (Rupees Seventeen Lakhs Eighty-seven Thousand Two Hundred Seventy-three And Paise Thirty Four) together with future interest and charges thereon within 60 days** from the date of this publication. That on your failure to comply therewith we, the secured creditor, shall be entitled to exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002. In terms of Section 13(13) of the Act you shall not transfer the secured assets aforesaid from the date of receipt of the notice without Bank's prior consent. Please take note of the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Yours faithfully

**Date: 11.11.2025, Place: Lucknow**

**Authorized Officer, Union Bank of India**



# THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS

 **FINANCIAL EXPRESS**  
Read to Lead